

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर 2022—भाद्र 28, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2022

क्र. 14093-209-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 13 OF 2022

**THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2022**

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh NagarpalikVidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

PART I

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)**

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 9, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) not more than twelve persons in the Municipal Corporations having population of more than ten lakhs and not more than eight persons in the Municipal Corporations having population of less than ten lakhs, having knowledge or experience in the municipal administration, nominated by the State Government:

Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated;”.

PART II

**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961
(NO. 37 OF 1961)**

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 19, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) not more than six persons in case of Municipal Councils and not more than four persons in case of Nagar Parishads having knowledge or experience in the municipal administration, nominated by the State Government:

Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 9 (1) (c) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 19 (1) (c) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) provides nomination of certain number of persons in the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Parishads who are having knowledge or experience in the municipal administration. Since then, the area, wards, population, and responsibilities of urban local bodies have increased manifold. Therefore, in the present circumstances, it has become imperative to increase rationally the number of nominated persons having knowledges of urban administration.

2. In view of the above, the amendment of Section 9 (1) (c) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and Section 19 (1) (c) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 has been proposed suitably.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated, the 9th September 2022

BHUPENDRA SINGH
Member-in-Charge.